



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जून 22-जून 28, 2008, शनिवार/आषाढ़ 1-आषाढ़ 7, 1930  
No. 26] NEW DELHI, JUNE 22-JUNE 28, 2008, SATURDAY/ASADHA 1-ASADHA 7, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्ठक संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सचिपिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय)

नई दिल्ली, 12 जून, 2008

सं. का. वि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय में अभियोजक-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कष्ट अन्वेषण कार्यालय, समूह 'ख' पद राजपत्रित, अभियोजक-2 भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	------------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अभियोजक-2	4*(2008) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित (अनुसचिवीय)	रु. 6500-200- 10500	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा परी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
---	--	--	----------------------------------	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)

प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
(क) (i) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या		
(ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और		

(12)

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या समतुल्य ; और
- (ii) मुकद्दमेबाजी और न्यायालय सम्बन्धी मामले संचालने में दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

- (i) न्यायालयों में कारपोरेट/व्यापिक विधि में कम्पनियों से सम्बन्धित अभियोजन मामले संचालने में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
- (ii) अभियोजन कार्यवाहियों में प्रयोग किए जाने वाले सर्वोत्तम रूढ़ियों के संग्रहण सम्पकलन और प्रस्तुतीकरण या कथन के अभिलेखन या साक्ष्य संग्रहण की तकनीकों और साधनों में निपुण होना चाहिए ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काहर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि थी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[फा. सं. 4/1/2006-प्रस. ग.क.अ.का.]

बिजेंद्र खोसला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

(Serious Fraud Investigation Office)

New Delhi, the 12th June, 2008

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Prosecutor-II in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs Group 'B' Post Gazetted, Prosecutor-II Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Educational Qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, Educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage, is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and Other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension), Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Prosecutor-II	04* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, (Ministerial)	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
Deputation	<p><b>DEPUTATION :</b></p> <p><b>Officers under the Central Government</b></p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or</p> <p>(ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelor's degree in Law from a recognized University or equivalent;</p> <p>(ii) Two years' experience in handling litigation and court matters.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>(i) should have on year experience in handling prosecution matters in courts relating to companies in corporate/criminal law.</p> <p>(ii) should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
[F. No. 4/1/2006-Admn. SFIO] JITESH KHOSLA, Jr. Secy.	

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग )

नई दिल्ली, 20 जून, 2008

सा. का. नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग), राष्ट्रीय आकाश्रीय आंकड़ा अवसंरचना प्रभाग में तंत्र विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आकाश्रीय आंकड़ा अवसंरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग), तंत्र विश्लेषक भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की भावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तंत्र विश्लेषक	2*(2008) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिबोध	रु. 7500-250-12000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2262 GZ/08-2

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचोषा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
---	--	--	-----------------------------	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

12	13	14
----	----	----

प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 6500-10500 रुपये या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो ; और (ख) (i) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर उपयोजन में विशेषज्ञता सहित) में स्नातकोत्तर या इंजीनियरी में स्नातक या कम्प्यूटर इंजीनियरी प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में स्नातक या समतुल्य ; और (ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य करने में चार वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत वास्तविक क्रियाकलाप करने का अनुभव भी सम्मिलित है ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है
---	----------------	--

या

(आ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि या इलैक्ट्रॉनिक या इलैक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य ; और

(ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से वास्तविक क्रियाकलाप करने में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

या

(ई) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य; और

(ii) इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ा प्रसंस्करण कार्य करने में छह वर्ष का अनुभव, जिसमें से वास्तविक क्रियाकलाप करने में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

या

(i) इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन 'क' स्तर का डिप्लोमा और कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रोग्राम का प्रत्यायन या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अधीन प्रस्तुत कम्प्यूटर उपयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा की राज्य परिषद् द्वारा प्रदत्त किया गया कम्प्यूटर उपयोग में पश्च पोलीटेक्नीक डिप्लोमा या समतुल्य; और

(ii) इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ा प्रसंस्करण कार्य करने में छह वर्ष का अनुभव, जिसमें से वास्तविक क्रियाकलाप करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काहर ब्राह्म्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[फा. सं. एस.एम./01/024/2006]

बी. के. मन्थन, डेस्क ऑफिसर

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 20th June, 2008

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Analyst in National Spatial Data Infrastructure (NSDI) Division, Ministry of Science and Technology, (Department of Science and Technology), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Spatial Data Infrastructure (NSDI), Ministry of Science and Technology, (Department of Science and Technology), System Analyst Recruitment Rules, 2008

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit and other Qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added year of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension), Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
System Analyst	02* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 7500-250-12000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9		10	
Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable	
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.			
11		12			

## Deputation

## DEPUTATION :

## OFFICERS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or  
 (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or Department; or  
 (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre or department and
- (b) (i) Possessing the following educational qualifications and experience:
- (A) (i) Master's degree in Computer Application or Computer Science or Master's Degree in Technology (with specialization in computer application) or Bachelor in Engineering or Bachelor in Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from recognised university or equivalent; and  
 (ii) Four years experience in Electronic Data Processing work including experience of actual programming.

OR

- (B) (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised university or equivalent; and  
 (ii) Five years experience in Electronic Data Processing out of which at least two years experience should be in actual programming.



12

OR

- (C) (i) Masters degree of a recognised university or equivalent or degree in Engineering of a recognized university or equivalent; and  
 (ii) Six years experience in Electronic Data Processing out of which at least three years experience should be in actual programming

OR

- (D) (i) 'A' Level Diploma under Department of Electronic and Accreditation of Computer Courses Programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under university programme or post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded by the State Council of Technical Education or equivalent; and

- (ii) Six years experience in Electronic Data Processing out of which at least three years experience should be in actual programming

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years)

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. SM/01/024/2006]

B. K. MANTHAN, Desk Officer

### कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

सा. का. नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना में पुस्तकालय और सूचना सहायक (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना, पुस्तकालय और सूचना सहायक (श्रेणी 'ग') भर्ती संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली दुग्ध योजना पुस्तकालय और सूचना सहायक (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 2005 इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है। नियम (1) के उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना, पुस्तकालय और सूचना सहायक (श्रेणी 'ग') भर्ती नियम, 2006 है।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, कालम 2 में प्रविष्टि, '2005', के स्थान पर प्रविष्टि, '2006' रखी जाएगी।

[फा. सं. 3-9/2005-प्रस. IV]

एच. आर. केशवाधूर्ति, उप सचिव

पाद टिप्पणी: मूल नियम 25 मई, 1996 की सा. का. नि. 219 और पश्चात् की संशोधित 10 मार्च, 2001 की सा. का. नि. 141 और 7 जनवरी, 2006 की सा. का. नि. 5 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2262 GI/08-3

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 16th June, 2008

**G.S.R. 120.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme, Library and Information Assistant (Group 'C'), Recruitment Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme, Library and Information Assistant (Group 'C'), Recruitment Amendment Rules, 2008

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Milk Scheme Library and Information Assistant (Group 'C') Recruitment Rules, 2005, (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) of rule 1, the following shall be substituted, namely:—

(i) "These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme, Library and Information Assistant (Group 'C') Recruitment Rules, 2006"

3. In the Schedule to the said rules, in column 2 for the entry, "2005", the entry, "2006" shall be substituted.

[F. No. 3-9/2005-Admn. IV]

H. R. KESHAVAMURTHY, Dy. Secy.

**Foot Note:—** The Principal Rules were published in the Gazette of India vide number GSR 219 dated the 25th May, 1996 and subsequently amended by number G.S.R. 141 dated the 10th March, 2001 and G.S.R. 5 dated 7th January, 2006.

नई दिल्ली, 18 जून, 2008

सा. का. नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समाकलित मासिकी परियोजना (मेट ग्रेड-II), 1976, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में मेट ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची, मेट ग्रेड-II समूह 'ख' भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपाध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. ध्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान अवयव पद	चयन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुव्यय है या नहीं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मेट ग्रेड-II	2*(2008) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसूचिबोध	रु. 6500- 10,500/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणति : भर्ती स्वीकृत होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति	
प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनिधित्व/आमेलन किया जाएगा।		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
12		13		14	
ऐसे बोस (ग) जिन्होंने 5,000-8,000 रुपए के वेतनमान की उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास प्राणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी मत्स्य जलयान के लिए स्किपर के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र है।		प्रोन्नति के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति		संच लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।	
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, —अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त (मत्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य 3. अवर सचिव (मत्स्यिकी प्रशासन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य 4. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर —सदस्य			

New Delhi, the 18th June, 2008

**G.S.R. 121.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Fisheries Project (Mate Gr.-II) 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mate Grade-II in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Mate Grade-II, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit and other Qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added year of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension), Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Mate Grade-II	02* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 6500-10500	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	2 years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation to be made
11	12
Promotion	<p>Bosun (C) in the pay scale of Rs. 5000-8000 with six years regular service in the grade and possessing 'Certificate of Competency as Skipper' for fishing vessels issued by Mercantile Marine Department.</p> <p>Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition. Service Commission is to be consulted	Circumstances in which Union Public in making recruitment.
13	14
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion.</p> <p>1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering and Training —Chairman</p> <p>2. Joint Commissioner (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member</p> <p>3. Under Secretary (Fisheries Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member</p> <p>4. Mechanical Marine Engineer. —Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
<p>[F. No. 3-17/2007-Fy. Admn.]</p> <p>SUDEEPA KOHLI, Under Secy.</p>	

## संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 2008

सा. क्र. नि. 122.—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय में उप संग्रहाध्यक्ष (मुद्रा विषयक एवं पुरालेख शास्त्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, उप संग्रहाध्यक्ष (मुद्रा विषयक एवं पुरालेख शास्त्र) समूह 'क' भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों की अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य विषय पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. गिरहूँगा : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति/अपनी पत्नी के जीवित रहते, किसी व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्र सरकार इस आशय से संतुष्ट होने पर कि उक्त व्यक्ति तथा विवाह में शामिल अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के तहत, ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण विद्यमान हैं, उक्त व्यक्ति को इस नियम के प्रभव से छूट दे सकती है।

2262 GI/08-4

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वह आदेश द्वारा, लिखित में तथा संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करने के परचास, किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में उक्त नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. **व्यावृत्ति** : उक्त नियमों का कोई भी प्रावधान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को, इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा की छूटों और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप संग्रहाध्यक्ष (मुद्रा विषयक एवं पुरालेख शास्त्र)	1* (2008) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसूचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक सौविदा सहित)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
--	---	--

12	13	14
<p><b>प्रोन्नति :</b> ऐसे सहायक संग्रहाध्यक्ष (मुद्रा विषयक एवं पुरालेख शास्त्र) जिन्होंने 5500-175-9000 रुपये के वेतनमान की उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'की' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष</li> <li>2. महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य</li> <li>3. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय —सदस्य</li> <li>4. संग्रहाध्यक्ष (मुद्रा विषयक एवं पुरालेख शास्त्र), राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य</li> <li>5. निदेशक (प्रशासन एवं संग्रह), राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्रों या विश्व-विद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अर्द्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत वे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10,500/- रु. के वेतनमान के पदों या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् इसी श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500-9000/- रु. के वेतनमान के पदों या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् इसी श्रेणी में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिन्हें निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त हों :

आवश्यक :

(क)(i) इतिहास या संस्कृत या पाली या प्राकृत या फारसी या अरबी या पुरातत्व या मानव-विज्ञान या ललित कला या कला इतिहास में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संग्रहालय-विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य; और

(iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय या क्षेत्रीय महत्व के किसी संग्रहालय के सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव :

(iv) मुद्रा विषयक एवं पुरालेख के क्षेत्र में एक वर्ष का क्षेत्र अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण

या

(ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप इतिहास के साथ संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय या क्षेत्रीय महत्व के किसी संग्रहालय के सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ;

(iii) मुद्रा विषयक एवं पुरालेख के क्षेत्र में एक वर्ष का क्षेत्र अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से सुसंगत क्षेत्र में एम. फिल की उपाधि ।

टिप्पण 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की तत्काल प्रतीक्षा में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे ।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

2262 GI/08-5

**टिप्पण 2 :** इस नियुक्ति से तुरंत पहले, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक सविदा सहित) शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं. एफ. 6-21/2006-एम-1 (भाग-1)]

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th June, 2008

**G.S.R. 122.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Curator (Numismatics and Epigraphy) in the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Deputy Curator (Numismatics and Epigraphy), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Curator (Numismatics and Epigraphy)	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not applicable	Not applicable



Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
11		12
Promotion failing which by deputation (including short term contract)	<p><b>Promotion :</b>            Assistant Curator (Numismatic and Epigraphy) in the pay scale of Rs. 5500-175-9000/- with eight years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where junior who have completed their qualification or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short term contract)</b>            Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department, or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(a)(i) Master's degree of a recognized University or equivalent in History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Arabic or Archaeology or Anthropology or Fine Arts or History of Art.</p> <p>(ii) Diploma in Museology from a recognized University or equivalent; and</p> <p>(iii) Three years experience in the relevant field in a museum of national or regional importance under the control of Central Government or State Governments or Union territories.</p> <p>(iv) One year's field experience and practical training in the field of Numismatics and Epigraphy.</p> <p><b>OR</b></p> <p>(b)(i) Master's degree from a recognized University or equivalent in Museology with History as a subject at Bachelor's degree level.</p>	

12

(ii) Three years' experience in the relevant field in a museum of national or regional importance under the control of Central Government or State Governments or Union territories.

(iii) One year's field experience and practical training in the field of Numismatics and Epigraphy.

**Desirable :**

M. Phil degree in the relevant field from a recognized University or equivalent.

**Note : 1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.**—Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three year).

**Note 3.**—The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotin Committee (for considering promotion):

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission      | —Chairman |
| 2. Director General, National Museum                          | —Member   |
| 3. Joint Secretary, Ministry of Culture                       | —Member   |
| 4. Curator (Numismatic and Epigraphy), National Museum        | —Member   |
| 5. Director (Administration and Collection), National Museum. | —Member   |

Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No. F. 6-21/2006-M-1(Part-I)]

N. P. JOSHI, Under Secy.